

:-प्रेस नोट दिनांक 24-05.2021:-

थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।

थाना फरीदपुर #bareillypolice द्वारा भुता रोड पर आयोजित कार्यक्रम में बालिका उम्र लगभग 11 वर्ष के गोली लग जाने व दौरान ईलाज मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र को मय नाजायज शस्त्र के किया गया गिरफ्तार ।

यह कि थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर दिनांक 22/05/2021को मुकदमा वादी श्री अवधेश कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम सराय पिपरिया थाना मूसाझाग जिला बदायूं द्वारा सूचना अंकित करायी गयी कि थाना भुता रोड निकट पहलऊ गांव थाना फरीदपुर बरेली में मेरे साडू भारत के घर पर शादी कार्यक्रम में आया था जहां पर मेरा परिवार व मेरी पुत्री उम्र 11 वर्ष भी थी । जहां पर अभियुक्त धीरेन्द्र पुत्र नरायनदास शर्मा निवासी सनी कालोनी गुरुद्वारे के पास कस्बा फरीदपुर बरेली द्वारा नाजायज तमंचे से छेडछाड करते समय अचानक मेरी पुत्री को गोली लगी जिसकी ग्लोबल अस्पताल बरेली में इलाज को दौरान मृत्यु हो गयी वादी की तहरीर आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 225/2021 धारा 304 भा.द.वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना के दौरान उक्त घटना में दोषी पाये गये अभियुक्त धीरेन्द्र पुत्र नरायनदास शर्मा निवासी सनी कालोनी गुरुद्वारे के पास कस्बा फरीदपुर बरेली को भारत के मकान के सामने बहद ग्राम पहलऊ समय करीब 21.20 बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त असलाह एक अदद 32 बोर तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर मु0अ0सं0-229/2021 धारा 3/25/27 A Act पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. धीरेन्द्र पुत्र नरायनदास शर्मा निवासी सनी कालोनी गुरुद्वारे के पास कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली

थाना फरीदपुर पर पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

1-मु0अ0सं0 225/2021 धारा 304 भा.द.वि0 थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।

2-मु0अ0सं0-229/2021 धारा 3/25/27 A Act

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद 32 बोर तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा थाना फरीदपुर जनपद बरेली

2. हे0का0 598 वीरपाल थाना फरीदपुर जनपद बरेली

3. का0 2057 गौरव पोसवाल थाना फरीदपुर जनपद बरेली

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी)
प्र0नि0 थाना फरीदपुर, बरेली ।